

IDBI Bank Credit Card Cashback Offer – Terms and Conditions

IDBI Bank is pleased to announce the **Credit Card Cashback Offer**, exclusively for select Credit Cardholders. Please read the following terms and conditions carefully before participating:

1. Offer Duration

- Start Date: July 24, 2025
- End Date: August 31, 2025

2. Offer Details

- Cash back of ₹250 on a valid debit transaction during offer duration.
- The offer is valid exclusively for selected Credit Cardholders
- All transactions excluding cash withdrawals will be considered eligible.
- Offer valid for Once per card during the offer period.
- Transactions on primary and add-on card, both will be considered eligible.
- Cashback will be credited to card account in subsequent month for the current month, excluding refund and chargeback transactions.
- Cash back shall be reversed / blocked for the transactions where chargeback is raised subsequent to credit of the cash back.

3. Eligibility Criteria

- The offer is valid only for IDBI Bank Credit Cardholders who have received official communication from the Bank.
- Only settled transactions posted to the card account within the campaign period will be considered.
- Cashback will be credited to the cardholder's account in the next billing cycle following the campaign month.
- Cardholders with delinquent accounts (i.e., overdue payments) are not eligible.
- If the cardholder's relationship with the Bank ends during the campaign period or before cashback credit, the benefit will lapse. This includes any relationship terminated either by the Bank or the Cardholder.

4. Additional Terms

- In case of a chargeback, the cashback amount will be reversed or blocked.
- All applicable taxes, duties, and levies are the sole responsibility of the cardholder.
- Participation in the campaign implies acceptance of all terms and conditions.
- Any disputes related to the offer must be raised before the campaign end date. Disputes raised thereafter will not be entertained.
- All disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts in Mumbai.

5. Bank's Rights

- IDBI Bank reserves the right to modify, withdraw, or replace the campaign or its terms at any time without prior notice.
- The Bank's decision regarding the campaign shall be final and binding.
- These terms are in addition to the Cardholder Agreement and other applicable terms governing the use of IDBI Bank Credit Cards.

आईडीबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर – निबंधन एवं शर्तें

आईडीबीआई बैंक को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि चुनिंदा क्रेडिट कार्डधारकों के लिए विशेष रूप से "क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर" लेकर आया है. कृपया भाग लेने से पहले निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

1. ऑफर की अवधि

- प्रारंभ तिथि: 24 जुलाई 2025
- समाप्ति तिथि: 31 अगस्त 2025

2. ऑफर विवरण

- ऑफर अवधि में किसी भी राशि के वैध लेनदेन (debit) पर ₹250 का कैशबैक.
- नकद निकासी को छोड़कर सभी लेनदेनों को पात्र माना जाएगा.
- ऑफर अवधि के दौरान प्रत्येक कार्ड पर एक बार ऑफर वैध है.
- प्राइमरी और ऐड-ऑन दोनों कार्ड द्वारा किए गए लेनदेन पात्र होंगे.
- चालू माह के लिए कैशबैक अगले माह में कार्ड खाते में क्रेडिट किया जाएगा, रिफंड और चार्जबैक लेनदेन को छोड़कर.
- उन लेनदेनों के लिए कैशबैक को वापस ले लिया जाएगा/अवरुद्ध कर दिया जाएगा जहां कैशबैक क्रेडिट होने के बाद चार्जबैक दर्ज किया जाता है.

3. पात्रता मानदंड

- ऑफर केवल उन्हीं आईडीबीआई बैंक क्रेडिट कार्डधारकों के लिए है जो बैंक से आधिकारिक सूचना प्राप्त किए हैं.
- अभियान अवधि के दौरान कार्ड खाते में निपटान किए गए लेनदेनों पर ही विचार किया जाएगा.
- अभियान माह के बाद अगले बिलिंग साइकिल में कार्डधारक के खाते में कैशबैक जमा किया जाएगा.
- बकाया खाते (अर्थात अतिदेय भुगतान) वाले कार्डधारक पात्र नहीं हैं.
- यदि अभियान अवधि के दौरान या कैशबैक क्रेडिट से पहले कार्डधारक का बैंक के साथ संबंध समाप्त हो जाता है, तो लाभ समाप्त हो जाएगा. इसमें बैंक या कार्डधारक द्वारा समाप्त किया गया कोई भी संबंध शामिल है.

4. अतिरिक्त शर्तें

- चार्जबैक की स्थिति में, कैशबैक राशि रिवर्स या ब्लॉक की जाएगी.
- सभी लागू कर, शुल्क और प्रभारित शुल्क का जिम्मेदारी केवल कार्डधारक की होगी.
- अभियान में भाग लेना सभी निबंधनों एवं शर्तों की स्वीकृति मानी जाएगी.
- ऑफर से संबंधित कोई विवाद अभियान अवधि की समाप्ति से पहले दर्ज किए जाने चाहिए. उसके बाद दर्ज विवादों पर विचार नहीं किया जाएगा.
- सभी विवादों का निपटान केवल मुंबई के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा.

5. बैंक के अधिकार

- आईडीबीआई बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय अभियान या इसकी शर्तों को आशोधित करने, वापस लेने या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
- अभियान के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
- ये शर्तें कार्डधारक करार और आईडीबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के उपयोग को नियंत्रित करने वाली अन्य लागू शर्तों के अतिरिक्त है.